



बटुक भैरव चालीसा

॥ दोहा ॥

विश्वनाथ को सुमरि मन,

धर गणेश का ध्यान।

भैरव चालीसा पढ़ूं,

कृपा करहु भगवान ॥

बटुकनाथ भैरव भजूं,

श्री काली के लाल।

मुझ दास पर कृपा कर,

काशी के कुतवाल ॥

॥ चौपाई ॥

जय जय श्री काली के लाला,

रहो दास पर सदा दयाला।

भैरव भीषण भीम कपाली,

क्रोधवन्त लोचन में लाली।

कर त्रिशूल है कठिन कराला,
गल में प्रभु मुंडन की माला।

कृष्ण रूप तन वर्ण विशाला,
पीकर मद रहता मतवाला।

रुद्र बटुक भक्तन के संगी,
प्रेतनाथ भूतेश भुजंगी।

त्रैल तेश है नाम तुम्हारा,
चक्रदण्ड अमरेश पियारा।

शेखर चन्द्र कपाल विराजै,
स्वान सवारी पै प्रभु गाजै।

शिव नकुलेश चण्ड हो स्वामी,
बैजानाथ प्रभु नमो नमामी।

अश्वनाथ क्रोधेश बखाने,
भैरो काल जगत न जाने।

गायत्री कहैं निमिष दिगम्बर,
जगनाथ उन्नत आडम्बर।

क्षेत्रपाल दशपाणि कहाये,
मंजुल उमानन्द कहलाये।

चक्रनाथ भक्तन हितकारी,
कहैं त्रयम्बक सब नर नारी।

संहारक सुनन्द सब नामा,
करहु भक्त के पूरण कामा।

नाथ पिशाचन के हो प्यारे,
संकट मेटहु सकल हमारे।

कृत्यायू सुन्दर आनन्दा,

भक्त जनन के काटहु फंदा।

कारण लम्ब आप भयभंजन,

नमोनाथ जय जनमन रंजन।

हो तुम देव त्रिलोचन नाथा,

भक्त चरण में नावत माथा।

त्वं अशितांग रुद्र के लाला,

महाकाल कालों के काला।

ताप विमोचन अरिदल नासा,
भाल चन्द्रमा करहिं प्रकाशा।

श्वेत काल अरु लाल शरीरा,
मस्तक मुकुट शीश पर चीरा।

काली के लाला बलधारी,
कहां तक शोभा कहूं तुम्हारी।

शंकर के अवतार कृपाला,
रहो चकाचक पी मद प्याला।

काशी के कुतवाल कहाओ,
बटुकनाथ चेटक दिखलाओ।

रवि के दिन जन भोग लगावें,
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें।

दरशन करके भक्त सिहावें,
दारुड़ा की धार पिलावें।

मठ में सुन्दर लटकत झावा,
सिद्ध कार्य कर भैरों बाबा।

नाथ आपका यश नहीं थोड़ा,
करमें सुभग सुशोभित कोड़ा।

कटि घुंघरू सुरीले बाजत,
कंचनमय सिंहासन राजत।

नर नारी सब तुमको ध्यावहिं,
मनवांछित इच्छाफल पावहिं।

भोपा हैं आपके पुजारी,
करें आरती सेवा भारी।

भैरव भात आपका गाऊँ,
बार बार पद शीश नवाऊँ।

आपहि वारे छीजन धाये,
ऐलादी ने रुदन मचाये।

बहन त्यागि भाई कहाँ जावे,
तो बिन को मोहि भात पिन्हावे।

रोये बटुक नाथ करुणा कर,
गये हिवारे मैं तुम जाकर।

दुखित भई ऐलादी बाला,
तब हर का सिंहासन हाला।

समय ब्याह का जिस दिन आया,
प्रभु ने तुमको तुरत पठाया।

विष्णु कही मत विलम्ब लगाओ,
तीन दिवस को भैरव जाओ।

दल पठान संग लेकर धाया,
ऐलादी को भात पिन्हाया।

पूरन आस बहन की कीनी,
सुख चुन्दरी सिर धर दीनी।

भात भरा लौटे गुण ग्रामी,
नमो नमामी अन्तर्यामी।

॥ दोहा ॥

जय जय जय भैरव बटुक,

स्वामी संकट टार।

कृपा दास पर कीजिए,

शंकर के अवतार ॥

जो यह चालीसा पढ़े,

प्रेम सहित सत बार।

उस घर सर्वानन्द हों,

वैभव बढ़ें अपार ॥

हिन्दीपथ.कॉम

अन्य चालीसा पढ़े

- [हनुमान चालीसा](#)
- [सूर्य चालीसा](#)
- [शिव चालीसा](#)
- [महावीर चालीसा](#)
- [दुर्गा चालीसा](#)
- [साईं चालीसा](#)
- [शनि चालीसा](#)
- [महाकाली चालीसा](#)
- [गणेश चालीसा](#)
- [तुलसी चालीसा](#)
- [लक्ष्मी चालीसा](#)
- [बगलामुखी चालीसा](#)
- [राम चालीसा](#)
- [गोरख चालीसा](#)
- [विष्णु चालीसा](#)
- [गोपाल चालीसा](#)
- [गायत्री चालीसा](#)
- [नवग्रह चालीसा](#)
- [काली चालीसा](#)
- [रविदास चालीसा](#)
- [भैरव चालीसा](#)
- [बाला जी चालीसा](#)
- [सरस्वती चालीसा](#)
- [महालक्ष्मी चालीसा](#)
- [कृष्ण चालीसा](#)
- [पार्वती चालीसा](#)

- [खाटू श्याम चालीसा](#)
- [शारदा चालीसा](#)
- [रामदेव चालीसा](#)
- [ललिता चालीसा](#)
- [राधा चालीसा](#)
- [अन्नपूर्णा चालीसा](#)
- [विश्वकर्मा चालीसा](#)
- [श्री वैष्णो चालीसा](#)
- [पितर चालीसा](#)
- [परशुराम चालीसा](#)
- [बटुक भैरव चालीसा](#)
- [विन्ध्येश्वरी चालीसा](#)
- [जाहरवीर चालीसा](#)
- [ब्रह्मा चालीसा](#)
- [गिरिराज चालीसा](#)
- [शाकम्भरी चालीसा](#)
- [नर्मदा चालीसा](#)
- [राणी सती चालीसा](#)
- [प्रेतराज चालीसा](#)
- [गंगाराम चालीसा](#)
- [संतोषी चालीसा](#)
- [बालक नाथ चालीसा](#)
- [गंगा चालीसा](#)
- [मोहन राम चालीसा](#)
- [शीतला चालीसा](#)